

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 01.03.2021 जनपद देवरिया।

विदेश भेजने के नाम पर फर्जी वीजा देकर ठगी करने वाला जालसाज गिरफ्तार, 57,000/-रूपये, फर्जी वीजा आदि सामान बरामद।

दिनांक 27.02.2021 को आवेदक धर्मेन्द्र पासवान पुत्र सरदार पासवान, निवासी लहछुवा, थाना बरहज, जनपद देवरिया द्वारा इस आशय की तहरीर उपलब्ध करायी गयी कि वादी विदेश भेजने व नौकरी लगाने के नाम पर वीजा व टिकट देने के लिए वादी व उसके अन्य साथियों से 3,57,000/-रूपये रवि चैरसिया के खाते में जमा करा लिया गया। इसके पश्चात रवि चैरसिया द्वारा उन्हे फर्जी वीजा देने के तत्पश्चात फोन नम्बर बन्द कर लिया गया। उक्त के संबन्ध में थाना बरहज पर मु0अ0सं0-32/2021, धारा-420,467,468,471,406 भादंस का अभियोग रवि चैरसिया उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा उक्त ठगी करने वाले गिरोह के पर्दाफाश एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी साइबर सेल देवरिया एवं प्रभारी निरीक्षक बरहज को निर्देशित किया गया था, इसी क्रम में दिनांक 28.02.2021 को प्रभारी साइबर सेल देवरिया व प्रभारी निरीक्षक(अपराध) बरहज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर की सूचना पर तहसील गेट से अभियुक्त को पकड़ा गया। पुलिस टीम द्वारा पूछने पर अपना नाम-पता रवि प्रताप चैरसिया पुत्र स्व0 दुर्गा प्रसाद चैरसिया, निवासी बतरौती, थाना बनकटा, जनपद देवरिया बताया। पकड़े गये अभियुक्त के कब्जे से धोखाधड़ी के 57,000/-रूपये, 04 अदद नकली वीजा, 04 अदद जॉब ऑफर लेटर बरामद हुआ। विशेष पूछताछ करने पर उसने बताया कि बेरोजगार लोगों से विदेश में रोजगार दिलाने के नाम पर अपने खाते में रूपये जमा कराते थे और फर्जी वीजा देकर, अपना नम्बर बन्द कर लेते थे। इसी प्रकार अभियुक्त द्वारा वादी के साथ ठगी करने तथा फर्जी वीजा उपलब्ध कराये जाने की घटना का स्वीकार किया गया। साइबर क्राइम सेल द्वारा उक्त व्यक्ति द्वारा और लोगों से ठगी किये जाने के संबन्ध में जांच की जा रही है। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

इस प्रकार अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी से थाना बरहज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-32/2021 धारा-420,467,468,471,406 भादंस का अभियोग का सफल अनावरण किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. रवि प्रताप चैरसिया पुत्र स्व0 दुर्गा प्रसाद चैरसिया, निवासी बतरौती, थाना बनकटा, जनपद देवरिया।

बरामदगी का विवरण:-

01.लोगों से ठगी का बरामद रूपया 57,000/-रूपये,

02.फर्जी वीजा 04 अदद,

03.फर्जी जॉब ऑफर लेटर 04 अदद,

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

01.निरीक्षक अनिल कुमार पाण्डेय, प्रभारी साइबर सेल देवरिया,

02.नि0 लालजी यादव, प्रभारी निरीक्षक (अपराध) थाना बरहज,

03.उ0नि0 शैलेन्द्र सिंह, थाना बरहज,

04.मु0आ0 शिवमंगल साइबर सेल देवरिया,

05.कां0 प्रद्युम्न जायसवाल साइबर सेल देवरिया,

06.कां0 राजेश तिवारी, साइबर सेल देवरिया,

07.म0आ0 पूर्णिमा चौधरी साइबर सेल देवरिया,

